FINANCIAL EXPRESS

(expleo)

Exple

Registered Office: 6A, Sixth Floor, Prince Chennai - 600 096, India, Phone:

25TH ANNUAL GENER

Members are requested to note that the 25th A on Thursday, August 10, 2023 at 3.30 P.M. IS compliance with Circular No. 10/2022 dated De "MCA Circular") and Circular SEBI/HO/CFD/PoD Board of India (SEBI) and the applicable provis Requirements) Regulations, 2015.

In compliance with the above circulars, electi 2022-23 will be sent to all the shareholder Participant(s). Shareholders holding shares in d numbers with their relevant depository particit their email addresses and mobile numbers with Limited, at Email: investor@cameoindia.com. T Company's website https://investors.expleo.co (www.bseindia.com) and National Stock Exch Depository Services (India) Limited ("CDSL") (a the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

Detailed instructions to Members for joining t e-voting or casting of votes through the e-voti mode, physical mode and for shareholders wh AGM. Members participating through VC / OAVI of the Companies Act, 2013.

The above information is being issued for the in with the MCA and SEBI Circulars as stated above

Place: Chennai Date: July 15, 2023

DCM SHRIRAM LTD.

Regd. Office: 2nd Floor (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi-110037 Tel : 011-42100200 CIN No.: L74899DL1989PLC034923

E-mail: response@dcmshriram.com Website: www.dcmshriram.com

NOTICE

Pursuant to the Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 24th July, 2023, inter alia, to consider the Unaudited Financial Results (both Standalone and Consolidated) for the quarter ended 30.6.2023.

This notice is also available on the website of the Company, i.e., www.dcmshriram.com and stock exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

> For DCM Shriram Ltd. Sdl-

(Sameet Gambhir) Place: New Delhi Company Secretary Date: 14.07.2023 & Compliance Officer

PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: B-40, Okhla Industrial Area, Phase -New Delhi- 110020

New Deini: 110/20 CIN: L74899DL1994PLC059950 Tel: +91-11-41610121 Fax: +91-11-41058461 Email id: info@pushpsons.com Website: www.pushpsons.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors is scheduled to be held on Monday, August 14, 2023 at New Delhi, inter-alia to consider and approve the un-audited financial results (Standalone) of the Company for the quarter ended June 30, 2023.

The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.pushpsons.com also on the website of the stock exchange at http://www.bseindia.com.

For Pushpsons Industries Limited

Pankaj Jain Director DIN: 00001923

A CHEM LIMITED

C029894

93 002, District: Bharuch, Gujarat, India. 30, District: Bharuch, Gujarat, India. carpura, Vadodara - 390 010, Gujarat, India.

an.com | Website : www.tatvachintan.com

informed that pursuant to section 110 and with the Rules 20 and 22 of Companies @0 dated 08 April 2020, 17/2020 dated 13 2020 dated 31 December 2020, 10/2021 22 and 11/2022 dated 28 December 2022, Secretarial Standard on General Meetings cable law, rules and regulations (Including), the Company seeks the approval of the as set out in the postal ballot notice dated c means (i.e. remote e-voting) only.

cplanatory Statement has been completed of Members / List of Beneficial Owners as pository Services (India) Limited ("CDSL") iddress with the Company / Depositories. aid business reply envelopes are not being A Circulars. The documents referred to in n send an email to cs@tatvachintan.com.

the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and dia.com respectively and on the website of

and in consequence could not receive the Dompany's RTA, Link Intime India Private k. Near Radhakrishna Char Rasta, Akota. on email at vadodara@linkintime.co.in / er would get soft copy of the Notice and the te e-voting for this postal ballot. In case of

ectronic means through E-voting services -voting have been provided in the Notice.

Clean

Registered Office: Office No. 503, Pentagon Towe Hadapsar, 'Pune - 411 013, Maharasht Corporate Identification Number: L24114PM TICE

NOTICE OF 20[™] ANNUAL GENERA AND E-VOTING INFORMAT

NOTICE is hereby given that the Twentieth (Meeting ('AGM') of the members of Clean Scientific Clean Scientific Control of the Meeting ('AGM') of the members of Clean Scientific Control of the Meeting ('AGM') of the members of Clean Scientific Control of the Meeting ('AGM') of the members of Clean Scientific Control of the Meeting ('AGM') of the members of Clean Scientific Control of the Meeting ('AGM') of t (IST) through VC or OAVM, in compliance read with Rule 20 of the Companies (Management and provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act, 2013 ("the Act, 2013 all its members to cast their vote on all the Resolutions set made thereunder, General Circular Nans (e-voting). Limited will be held on Thursday, 10th August 28th December, 2022 (in continuation to the circl mbers / Registrar of Beneficial Owners maintained by the DPs this regard) issued by the Ministry of Corp. ("cut-off date") shall be entitled to avail the facility of remote Circular"), and SEBI (Listing Obligation Resolutions set forth in the Notice. Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listi

Completion of dispatch of AGM Notice, AGM Notice and the Annual Report for FY 201

FINANCE LTD ;: Kosamattam City Centre

CLEAN SCIENCE AND TECHNOLth. T B Road, Kottayam-686001.

vebsite:www.kosamattam.com, Tel.No.0481 2586400

Place: New Delhi Date: July 14, 2023

Tel:- +91 020 41264761 | Fax: +91 20 ay, August 08, 2023, at 3.00 P.M, at the Registered Office:

Website: www.cleanscience.co.in | E-mail: complian Road, Kottayam, Kerala-686001 to transact the business as

General Meeting ("AGM") through email on Friday , July 14, ared with the Company / Registrar & Share Transfer Agent ionally, the Notice of the AGM is available on the websites of schange, ie, BSE Limited at www.bseindia.com, respectively bry Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

transact the business set forth in the Notice Company ('AGM Notice').

August 05, 2023 at 10.00 a.m (IST) and ends on Monday, Members may cast their vote electronically. Remote e-voting ay, August 07, 2023 and Members will not be allowed to vote

FY-22-23: In compliance with the MCA Circulather prior to the AGM(Remote E-voting) or during the AGM (by No. SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/C; by remote e-voting prior to the AGM are eligible to attend the 5th January, 2023 ('SEBI Circular'), the CompanyOnce the vote on a Resolution is cast by the Member, the same

13" July, 2023, via email, to those Members w becomes member of the Company after the notice is send was registered with the Depositories/Compae i.e. Wednesday, August 02, 2023, may obtain the login ID

zed form as on Friday, 07 July 2023 ("Cutthe members will only take place through e is not allowed to change it subsequently. The voting rights of the members shall be the Cut-off date i.e. Friday, 07 July 2023. nation purpose only.

ticing Company Secretaries, Vadodara as

he Company and the results of the Postal woting period to the stock exchanges in egulations 2015, as amended. The said the Registered office of the Company and "BSE") where the shares of the Company www.tatvachintan.com and on the website

e Frequently Asked Questions ("FAQs") er help section or write an e-mail to Link Intime India Private Limited, C-101,

Order of the Board of Directors Chintan Pharma Chem Limited

Ishwar Nayi cretary and Compliance Officer Membership No. A37444

mited

Taluk, Bengaluru – 560099 Taluk, Bengaluru – 560099

पठित घारा 13(12) के अंतर्गत प्रवत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, उनत अधिनयम की घारा 13(2) के अंतर्गत / सह—उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के अंतिम ज्ञात पतों पर मांग सूचनायें निर्गत की थीं, हालांकि मांग ह ही वापस लौट आयी / उनकी प्रवायगी नहीं हो पायों / उन पर प्राप्तकर्ता का अभ्यर्थन नहीं हो पाया। एतद्वारा निम्मतिश्वत उधारकर्ता(ओं) / सह—उधारकर्ता(ओं) / अंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एक बार पुर्के, इसे सूचना के प्रकारन की तिथि से 60 दिवसों की समयायि। में, यहां इसमें निम्न तालिका में आकत करे, इसे सूचना के प्रकारन की तिथि से 60 दिवसों की समयायि। में विकल रहने पर एकोर एआरसी, सर्करत पर नियत मांधी व्याज के साथ युगतान कर दें। युगतान करते में विकल रहने पर एकोर एआरसी, सर्कर्ता अंतर्गत विरचित नियमायली के अनुसार, प्रतिभूत परिसंपत्तियों / बंधककृत संगत्तियों का अधिप्रहण करने के

क्र. ऋण खाता सं. / सं. उधारकर्ता(ओं) / सह—उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम तथा पते

प्रवर्तित की जानेवाली प्रतिमृत/ बंधककृत अञ्चल परिसंपत्ति/ संपत्ति का पता

एलएएन न. — 512020010006501, 501812080052554, 501912090017848

 मैसर्स न्यू टेक इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अपने निवेशक श्री राजेश अरोड़ा एवं श्रीमती सुमन अरोड़ा के माध्यम से,

नं. 1/778, निकोलसन रोड, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली--110006 11. श्री राजेश अरोड़ा पुत्र

हरबंस लाल नं. के—19, मॉडल टाउन ।।, नई दिल्ली — 110005

अन्य पता : प्लॉट नं. 11, चतुर्थ तल, नॉर्थ एक्स-मॉडल टाउन, दिल्ली—110009

शीमती सुमन अरोड़ा
 पत्नी राजेश अरोड़ा
 के-19, मॉडल टाउन ।।, नई

दिल्ली — 110005 अन्य पता : प्लॉट नं 11, बतुर्थ तल, नॉर्थ एक्स-मॉडेल टाउन, दिल्ली—110009 प्रतिभूत / दृष्टिबंधककृत चल परिसंपत्तियां

सभी दृष्टिबंधककृत स्टॉक्स एवं बही ऋण जो 1/778, निकोलस नई दिल्ली – 110006 से संबद्ध हैं।

प्रतिभत अचल परिसंपत्तियां

1. संपूर्ण चतुर्श्व तल, छताधिकारों के साथ और संपत्ति सं. 11 पर विपादिक प्रलोश पर) का 1/4 अविनाजित हिस्सा, भूमि क्षेत्राधिमापनमाँडल टाउन आवासीय योजना (वर्तमान में नॉर्थ-एक्स मॉडल टाउन दिल्ली – 110009 में स्थित, (1) श्री राजेश अरोड़ा के नाम पर अके चतुर्थ तल पर अर्द्ध अविभाजित अंश हेतु) और (1) श्रीमती सुम्त के खतुर्थ तल पर अर्द्ध अविभाजित अंश हेतु)

सीमाबद्ध : उत्तर : मुख्य 80 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण : प्लॉट न : 12, मॉडल टाउन, पश्चिम : प्लॉट न : 12, मॉडल टाउ 2.1 स्वामित्वधारक निर्मित संपत्ति सं 1/778, जो निकोलसन रोड़ में स्थित है, जिसका अधिमापन 55.45 वर्ग गज या 48.67 वर्ग मीट श्री राजेश अरोड़ा के पास है और निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर : सड़क, दक्षिण : उक्त संपत्ति का शेष भाग, पूर्व : अन्य भाग

2.2 पूर्वी और पश्चिमी भाग में निर्मित संपत्ति सं. 1/778, क्षेत्र (नीय से ऊपर तक इसकी छत्त/आसमान तक छत के अधिक इम्पोर्ट्स ग्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है, जो निकोलसन सेड – 110006 पर स्थित है और इसकी सीमा निम्नानुसार है : उत्त संपत्ति नं. 1/775, पूर्व : संपत्ति नं. 1/777, पश्चिम : उक्त संपत्ति भाग

2.3 निर्मित संपत्ति सं. 1/778 का भाग, क्षेत्राधिमापन 106.67 व तक इसकी छत/आसमान तक छत के अधिकार के साथ) जो स्वामित्व में, निकोलसन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006 में सीमा निम्नानुसार है: उत्तर: उक्त संपत्ति का शेष भाग, दक्षिण पूर्व: संपत्ति नं. 1/777, पश्चिम: उक्त संपत्ति का शेष भाग।

उत्तत उधारकर्ता(ओ) / सह-उधारकर्ता(ओ) / बंधककर्ता(ओ) / गारंटप(रों) को भी सूचित किया जाता है। अनुसार, आपको एतद्द्वारा एन्कोर एआरसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिमृत परिसंपरितयों को विक्रट करने से विधिक रूप में निषेधित किया जाता है तथा इनमें किसी तृतीय पक्ष का हित हस्तांतरित, सृजित करन आपका ध्यान, रेखांकित प्रतिमृत परिसंपरितयों की ऋणमुक्ति के लिये मैसर्स न्यू टेक इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ब अरोंड़ा तथा अन्य के साध्यम से, के पास उपलब्ध समय के संदर्ग में अधिनियम की घारा 13 की उप–घारा 8

दिनांक : 05-07-2023

एनको

डोमेंट धारिता : कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएें। कृपया कम्पनी द्वारा यदि घोषित होता है, एनएसीएच द्वारा ल के लिये अपने डीपी के पास अपने बैंक के विवरणों को अद्यतन कराएें।

ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.bits.net.in पर सदस्यों द्वारा डाउनलोड के लिये भी उपलब प्रबंध तथा प्रशासन नियमावली, 2014, यथा-संशोधित तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घ विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन सूचित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये कम्पनी ने www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीए सभी व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई-गुरुवार, 3 अगस्त, 2023 को (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा शानिवार, 5 अगस्त, 2023 को अप.) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस अवधि के ऑफ तिथि शनिवार, 20 जुलाई, 2023 को भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं और कट ऑफ तिथि शनिवार, 20 जुलाई, 2023 तक शेयर हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अथवा info@masserv.com पर आरटीए, एमएएस सर्विसेस पास अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि सदस्य रिमोट लिये एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान युजर आईडी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी। सदस् प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। एजीएम सें मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वार दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे। श्रीमती कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. 29544 एवं सीपी नं. 11279), मै. प्रीतिका नेगी एंड एसोसिएट्स व के प्रोपराईटर को ई–वोटिंग के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रा की सूचना के साथ भेजी गई पत्र में दी गई है। ई–वोटिंग से संबंधित कोई भी पूछताछ/समस्या श्ली सुरेन कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी, बिट्स लिमिटेड, 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हाउस, 27, बा नई दिल्ली-110001, फोनः 011-43656567, ईमेलः bitsltd@gmail.com को संबोधित की ज कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में एतद्द्वारा र किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक साधारण सभा में का अभिलेख प्राप्त करने के उद्देश्य से सोमवार, 31 जुलाई, 2023 से रविवार, 6 अगस्त, 2023 (दोनों वि तक बंद रहेंगे। बिद्रस लिमिटे

स्थान नई दिल्ली तिथि: 14 जुलाई, 2023

् (कम्पनी सचिव एवं अनुपासन

PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: B-40, Okhla Industrial Area, Phase -I New Delhi- 110020 CIN: L74899DL1994PLC059950

Tel: +91-11-41610121 Fax: +91-11-41058461 Email id: info@pushpsons.com Website: www.pushpsons.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors is scheduled to be held on Monday, August 14, 2023 at New Delhi, inter-alia to consider and approve the un-audited financial results (Standalone) of the Company for the quarter ended June 30, 2023.

The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.pushpsons.com also on the website of the stock exchange at http://www.bseindia.com.

> For Pushpsons Industries Limited Sd/-Pankai Jain

Place: New Delhi Date: July 14, 2023 DIN: Whilst copy, it Express conter result condividual we the necession of the content of the content

enterir

Pankaj Jain Director DIN: 00001923 Whatso